



SILGO RETAIL LTD.

CIN : L36911RJ2016PLC049036

SIL/JAI/2020-21

December 01, 2020

To,
National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Listing Department
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Subject: Newspaper Advertisement for dispatch of Postal Ballot Notice and provision of Remote E-Voting Facility

Dear Sir/ Madam,

We are enclosing herewith copies of Newspaper Advertisement published in **Financial Express (English) and Jansatta (Hindi)** on Tuesday, December 01, 2020, inter alia informing about the dispatch of Postal Ballot Notice through email for seeking consent of members of the Company by way of Ordinary and Special Resolution for the Special Businesses mentioned in the Postal Ballot Notice through remote e-voting only as per Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rules 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in terms of General Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, General Circular No. 17 /2020 dated April 13, 2020 and General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

Kindly take the above information on your record.

Thanking You.
Yours Faithfully,

FOR AND ON BEHALF OF SILGO RETAIL LIMITED


TRIPTI SHARMA
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
M. No.: A52232



Encl: a/a

Open access norms: Regulator gives short-term respite to CGD players

FE BUREAU
New Delhi, November 30

EVEN AS THE Petroleum and Natural Gas Regulatory Board's (PNGRB) latest notification on open access has provided a short-term respite to city gas distribution (CGD) players, the sector experts feel that competition from other players will ultimately weigh down on their profitability in the future.

In the notification, PNGRB has not allowed existing compressed natural gas (CNG) outlets of state-run oil marketing companies (OMCs) in CGD areas to sell the fuel through the open access route, implying that CNG sales volume of existing CGD players like Indraprastha Gas IGL and Mahanagar Gas (MGL) will not increase immediately. However, a section of the industry noted that competition is imminent and profitability would be challenged eventually.

Analysts at Jefferies had noted that restricting OMCs from selling CNG under open access route will mitigate any negative impact on existing earnings of CGD companies like IGL and MGL in the CNG segment. After the release of the notification on Friday, share prices of IGL increased 10.9% from a day-ago to ₹496.3, while MGL shares increased 14.4% to ₹1,063.2 in the same period.

As much as 60% of IGL's volumes and around 65% of MGL's volumes are from CNG stations, which are on OMC sites. OMCs receive a commission of ₹3.7-4/kg and have already demanded a 90-100% rise in their commission retrospectively from the beginning of FY19.

"CGD players boosting Ebitda margin by not passing on the full benefit of fall in domestic gas price and PNGRB not allowing OMCs to take over incumbent's existing CNG stations on their site would hurt their case in court," analysts at ICICI Securities said, adding

Govt puts off penalty provision for not using QR codes on GST invoices

FE BUREAU
New Delhi, November 30

THE LACK OF preparedness from the banks has forced the government to waive off proposed penalty for not implementing dynamic QR code on invoices issued by GST-registered taxpayers with over ₹500 crore annual turnover, sources in the revenue department said.

The provision was to penalise businesses not using QR codes on their invoices from December 1 but now it would come into force from April 1. However, the penalty waiver is contingent on businesses using QR codes from the start of the next fiscal year.

The move is aimed at promoting digital payment in business to customer (B2C) transactions through QR code and enabling GST payment on UPI—a digital retail payment option. Sources said that while National Payments Corporation of India (NPCI) was ready to roll-out the QR code feature, the majority of the banks were unprepared despite multiple meetings and support from NPCI.

S&P retains India's growth forecast at -9% this fiscal

S&P GLOBAL RATINGS on Monday retained its forecast of 9% contraction in the Indian economy for the current fiscal, saying even though there are now upside risks to growth but it will wait for more signs that Covid infections have stabilised or fallen.

S&P, in its report on Asia Pacific, projected the Indian economy to grow at 10% in the next fiscal. "We retain our growth forecast of negative 9% in fiscal 2020-2021 and 10% in fiscal 2021-2022. While there are now upside risks to growth due to a faster recovery in population mobility and household spending, the pandemic is not fully under control," S&P said.

that "CGD players' Ebitda margin, which has seen secular rise in last few years, is likely to come under pressure with the advent of competition."

The development comes at a time when marketing exclusivity has already expired in Delhi-Noida-Ghaziabad for IGL, Mumbai-Thane urban Raigad for MGL. In its open access regulation, PNGRB has remarked that at least 20% of the CGD network and compression capacity would have

to be made available for open access to new entrants.

Analysts noted that in areas where marketing exclusivity is over for incumbent CGD players, decks have been cleared for competition as PNGRB is now likely to allow competition in these CGD areas one by one.

A report by Motilal Oswal pointed marketing exclusivity has ended in 40-45 geographical areas (GAs), and the proposed open access will be implemented in a phased manner.

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the Matter of M/s Melton Portfolio Management Limited having its registered Office at Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India

.....APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th Day of October, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
MELTON PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED

Sd/-
RAMESH CHANDER BHARDWAJ (Director)
DIN: 02776173
Address: Gali No.5, Mahavir Nagar, Kalaka Road Rewari - 123401 (HR)

Complete Address of Registered Office:
Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India
Date.: 01/12/2020
Place.: New Delhi

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the Matter of M/s Melton Portfolio Management Limited having its registered Office at Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India

.....APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th Day of October, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
MELTON PORTFOLIO MANAGEMENT LIMITED

Sd/-
RAMESH CHANDER BHARDWAJ (Director)
DIN: 02776173
Address: Gali No.5, Mahavir Nagar, Kalaka Road Rewari - 123401 (HR)

Complete Address of Registered Office:
Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India
Date.: 01/12/2020
Place.: New Delhi

SALE NOTICE UNDER IBC, 2016

SRI VINAYAKA PAPER AND BOARDS LIMITED (INLIQUIDATION)

7-1-285, Flat No.103, Sri Sai Swapnasampada Apartments, Balkampet, Sanjeev Reddy Nagar, Hyderabad-500038.

200 TPD PAPER AND 15 MW POWER UNITS

The following Assets and Properties of M/s. Sri Vinayaka Paper and Boards Limited (in Liquidation) forming part of Liquidation Estate are for sale by the Liquidator. The Sale will be done by the undersigned through the E-Auction platform: <https://www.bankeauctions.com> (with unlimited extension of 5 minutes each).

S. No.	Asset Description	Reserve Price Rs. in Crores
1	Company as a whole (As going concern) basis (OR)	49.55
2	30.94 acres of land & building at Sy.No.81/2, 82/2, 74, 83/2, 73, 77, 79 & 80/3, Near Chakra Dwara Bandam Village, Kanavaram (Village), Rajanagaram (Mandal), East Godavari Dist.	28.75
3	Plant and Machinery & Equipment at factory	47.62
4	All other Assets of the Company including Creditors, Debtors, Inventory and other receivables/assets along with carry forward loss of the Company if eligible under IT Act.	0.22

E Auction Timings on 17th Dec 2020:

Item 1	Item 2	Item 3	Item 4
2-3 PM	3-4 PM	4-5 PM	5-6 PM

- EMD can be deposited either by remittance into the account or through demand draft.
- Interested applicants may refer to the COMPLETE E-AUCTION PROCESS INFORMATION DOCUMENT containing details of terms and conditions of online E-Auction, E-Auction Bid form, Eligibility Criteria, Declaration by Bidders, EMD requirement etc., available on [M/s. C1 India Pvt Ltd., B.M Gandhi \(9700333933\)](https://www.bankeauctions.com) at Web Portal: <https://www.bankeauctions.com> or through E-Mail: svpb12345@gmail.com or madhucs1@gmail.com.
- The Liquidator have right to accept or cancel or extend or modify, etc any terms and conditions of E-Auction at any time. He has right to reject any of the bid without giving any reasons.
- EMD (i.e 10% of reserve price) & Documents Submission deadline is **05:00 PM IST on 15th December 2020** and E-Auction will be conducted from **2 PM till 6 PM IST on 17th December 2020**.
- E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" only.

Sd/- Madhusudhan Rao Goungunta, Liquidator,

Date: 01.12.2020
Place: Hyderabad

IBBI Reg No.: IBBI/PA-001/IP-P00181/2017-18/10360

Silgo Retail Limited

Regd. Office: B-11, Mahalaxmi Nagar, Jawaharlal Nehru Marg, Jaipur -302017 Rajasthan, India.

Phone : 0141- 4919655; Website : www.silgo.in; Email : info@silgo.in

CIN : L36911RJ2016PLC049036

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Section 110 and 106 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 and 22 of Companies (Management and Administration) Rules 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 if any, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and such other rules and regulation as may be applicable, the Company is seeking approval of its members through Postal Ballot (only through remote E-Voting) by way of Ordinary and Special Resolution for the Special Resolutions as set out in the Postal Ballot Notice dated November 28, 2020.

Pursuant to General Circular No. 14/ 2020 dated 8 April 2020, General Circular No. 17/ 2020 dated 13 April 2020 and General Circular No. 22/ 2020 dated 15 June 2020 on account of the threat posed by COVID- 19" issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the Notice of Postal Ballot along with Explanatory statement was sent via email only on or before November 30, 2020 to all the members whose name appeared in the Register of Member / Beneficial owner received from Registrar and Share Transfer Agent, National Securities Depository Limited (NSDL), Central Depository Services Limited (CDSL) as on November 27, 2020 (Cut-off date) and whose email address are available with Company / Depositories. The procedure for E-Voting is given in the notes forming part of the Postal Ballot Notice. The hard copy of Notice of Postal Ballot alongwith Postal Ballot Form and Prepaid Business Reply Envelope is not being dispatched to shareholders and shareholders are requested to communicate their assent or dissent through remote E-Voting only. The Notice of Postal Ballot along with the Explanatory Statement and other annexures is also available on the website of the Company at www.silgo.in, website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited "Emerge Platform" at <https://www1.nseindia.com/emerge/> and on the website of CDSL (agency appointed by the Company for providing the Remote E-Voting facility) i.e. www.evotingindia.com.

In compliance with Section 106 of the Companies Act, 2013 and rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide remote E-Voting facility to the shareholders of the Company. The Company has engaged the service of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for providing E-Voting facility in a secure manner and has appointed M/s. JMJA & Associates LLP, Practising Company Secretaries as the Scrutinizers for conducting the E-Voting process in a fair and transparent manner. The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on the cut-off date.

E-Voting period will commence on Tuesday, December 1, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and end on Wednesday, December 30, 2020 at 5.00 P.M.(IST). The E-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Shareholders are requested to cast their votes during this period only and to refer the E-Voting instructions in the Postal Ballot Notice regarding the process and manner for E-Voting. Once the vote is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and E-Voting user manual for shareholders available at www.evotingindia.com under the help section or call on 1800225533 or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or to cs@silgo.in or contact M/s. Tripti Sharma, Company Secretary & Compliance Officer, 0141-4919655) or to CDSL officers namely Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Rakesh Dahi (022-23058542) or Mr. Mehboub Lakhtani (022-23058543) who will address the grievances connected with the voting by electronic means.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR REMOTE E-VOTING:

- For Temporary Registration:** The Shareholders who have not registered their e-mail addresses or have not received any communication regarding this Notice for any reason whatsoever, may obtain this Notice and the procedure for E-Voting to enable E-Voting for the Postal Ballot by registering their e-mail addresses using the link provided by Bighare Services Private Limited, RTA of the Company i.e. <https://bighareonline.com/investorRegistration.aspx>. In case of any queries, shareholder may write by sending an e-mail to cs@silgo.in.
- For Permanent Registration:** It is clarified that for permanent registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) and in respect of physical holdings, with the RTA of the Company by following the procedure prescribed by the Depository Participant or the RTA, respectively.
- Validation of e-mail ids:** Those members who have already registered their e-mail address are requested to keep their e-mail addresses validated with their Depository Participants / the Company's RTA, to enable servicing of notices / documents / Annual Reports electronically to their e-mail address.

The Scrutinizers shall submit their report to the Chairman of the Company or to any other person authorized by him. The result of the Postal Ballot shall be declared by the Chairman or any other person authorized by him on or before Friday, January 01, 2021. The results of the voting by Postal Ballot (through remote E-Voting) along with the Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website i.e. www.silgo.in and on the E-Voting website of CDSL i.e. www.evotingindia.com. The same shall simultaneously be communicated to the National Stock Exchange of India Limited "Emerge Platform", on which the Equity Shares of the Company are listed.

For: **Silgo Retail Limited**
Sd/-
Tripti Sharma
Company Secretary & Compliance Officer
M. No: A52232
Place: Jaipur Date: December 01, 2020

Form No. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI (Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(1) of the companies (Authorised to Register) Rules, 2014)

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at ROC Kanpur that LifePure Organics LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
2. The principal objects of the company are Manufacturing of High Quality Organic Food Products.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at B Block Plot No 78, Sector 88, Noida Gautam Buddha Nagar UP 210301
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar of Companies at ROC Kanpur 37/17, Westcott Building, The Mall, Kanpur 208001, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office. Dated this 29 day of Nov 2020 Name(s) of Applicant: 1. Neetu Rai 2. Anupam Rai

fincare

Small Finance Bank

Registered Office: 301-306, 3rd Floor, ABHIJEET -V, Opp. Mayor's Bungalow, Law Garden Road, Mithakhali, Ahmedabad - 380006, Gujarat. www.fincarebank.com

LOAN AGAINST GOLD - AUCTION NOTICE ON "AS IS WHERE IS" BASIS

The below mentioned borrower/s have been issued notices to pay their outstanding amounts towards the loan against gold facilities availed from Fincare Small Finance Bank Ltd ("Bank"). Since the borrower/s has/have failed to repay his/their dues, we are constrained to conduct an auction of pledged gold items/articles as per below schedule.

Loan Account no	Name of the borrower	Auction Venue	Auction Date
19660000143771	MS. KATYAYNI SINGH	Fincare Small Finance Bank Ltd A-86, Ground Floor Shivalk Road, Block C , Malviya Nagar Near Begumpura Bus Stand New Delhi 110017	07-12-2020
206600000278260	MR. CHANDRA PRATAP SHRIVASTAWA	Fincare Small Finance Bank Ltd #F64, Ground Floor Pitampur Outer Ring Road Near Madhuban Chowk, Pitampura New Delhi 110034	07-12-2020
19660000142873 206600000278360	MR. RAJESH KUMAR RAKESH KUMAR BAID	Fincare Small Finance Bank Ltd Ground Floor, Sco No. 11 & 12 Huda Market Sector-15, Part-II Gurugram 122003	07-12-2020
206600000279309	ANJU RAWAT	Fincare Small Finance Bank Ltd Ground Floor, Sco No. 11 & 12 Huda Market Sector-15, Part-II Gurugram 122003	07-12-2020

Note: The auction is subject to certain terms and conditions mentioned in the bid form, which is made available before the commencement of auction.

ICICI Lombard

Nibhaye Vaade

ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

Corporate Identification Number is (CIN) L67200MH2000PLC129408
ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai, Maharashtra - 400025, India
Telephone Number: 1800 2566; Website: www.icicilombard.com; Email: customersupport@icicilombard.com

STATEMENT OF NATURE AND TERMS OF THE SCHEME OF ARRANGEMENT BETWEEN BHARTI AXA GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED AND ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED

This statement is hereby given to the policyholders of ICICI Lombard General Insurance Company Limited ("ICICI Lombard") pursuant to the in-principle approved dated November 27, 2020 granted by the Insurance Regulatory and Development Authority of India ("IRDAI") in relation to the proposed transfer of the general insurance business of Bharti AXA General Insurance Company Limited ("Bharti AXA") to ICICI Lombard by way of a demerger pursuant to a scheme of arrangement under the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Insurance Act, 1938 and the rules made thereunder ("Scheme"). The board of directors of both Bharti AXA and ICICI Lombard had previously approved the Scheme on August 21, 2020.

A copy of the Scheme is available at the registered office at ICICI Lombard House, 414, Veer Savarkar Marg, Near Siddhivinayak Temple, Prabhadevi, Mumbai, Maharashtra - 400025, India of ICICI Lombard and the same can be inspected and copies be obtained from such registered office on all days except Saturday, Sunday and public holidays. A copy of the Scheme has also been uploaded on the ICICI Lombard website i.e. https://www.icicilombard.com/docs/default-source/bulletin-board/annexure-2-scheme-of-arrangement.pdf?sfvrsn=39f6b6d9_18.

The details and key terms of the Scheme are provided below:

S.No.	Particulars	Details
1.	General	The proposed Scheme provides for the transfer of the General Insurance Business of Bharti AXA (i.e. the business of providing non-life insurance products and related services pursuant to registration number 0139 issued by the IRDAI on June 27, 2008) from Bharti AXA into ICICI Lombard by way of demerger.
2.	Rationale for demerger	The demerger and vesting of the General Insurance Business (as referred above) of Bharti AXA into ICICI Lombard, results in the following benefits: <ol style="list-style-type: none"> (i) Demerger of the General Insurance Business and consolidation with ICICI Lombard will help expand the business of ICICI Lombard in the growing Indian market thereby creating greater value for the shareholders/ stakeholders of both Bharti AXA and ICICI Lombard; (ii) Demerger of the General Insurance Business and consolidation with ICICI Lombard would aid in future growth of premiums by leveraging on the distribution strength and capabilities; (iii) The Scheme is beneficial for and in the interest of the policyholders as the demerger creates a more robust and financially strong resultant entity that can offer a wider product suite, more access points and comprehensive services to customers post completion of the Scheme; (iv) The increased knowledge, experience and expertise is expected to improve business operations and thereby improve overall customer satisfaction; (v) Demerger of the General Insurance Business and consolidation with ICICI Lombard is expected to create greater economies of scale thereby lowering the average costs and enhancing company profitability, which directly benefits shareholders and policyholders; and (vi) Demerger of the General Insurance Business and consolidation with ICICI Lombard is expected to bring in greater efficiency in funds management and unfettered access to cash flow generated by the business which can be deployed more efficiently to fund organic and inorganic growth opportunities.
3.	Appointed Date	The Appointed Date for the Scheme is April 1, 2020.
4.	Effective Date	Subject to fulfillment of the conditions precedent specified in the Scheme, the Scheme shall become effective on such date as may be specified by the IRDAI in its final approval for the Scheme in terms of the IRDAI (Scheme of Amalgamation and Transfer of General Insurance Business) Regulations, 2011
5.	Effectiveness of the Scheme	Subject to the sanction of the Scheme, the Scheme shall become effective from the Appointed Date but shall be operative from the Effective Date, and the General Insurance Business will be demerged from Bharti AXA into ICICI Lombard on a going concern basis.
6.	Consideration & Changes in Shareholding Pattern	As consideration for the demerger, the shareholders of Bharti AXA as on the Record Date (August 21, 2020) i.e. Bharti General Ventures Private Limited ("Bharti") and Societe Beajon ("AXA") shall be issued and allotted equity shares of ICICI Lombard of INR 10 each fully paid up under the Scheme, as follows: <p>Bharti: 1,82,35,659 equity shares</p> <p>AXA: 1,75,20,535 equity shares</p>
7.	Assets & Liabilities	<ol style="list-style-type: none"> (i) The assets and liabilities of the General Insurance Business of Bharti AXA, as more particularly set out in the Scheme (including liabilities with respect to certain listed and unlisted non-convertible debentures ("NCDs") issued by Bharti AXA), shall be assumed by ICICI Lombard on and from the Effective Date. (ii) Bharti AXA issued the NCDs after having received requisite approvals from IRDAI. (iii) In this regard, as part of the Scheme, the obligation of Bharti AXA to its existing NCD holders (together with the underlying liabilities thereof) shall be transferred to ICICI Lombard on their existing terms.
8.	Protection of Policy Holders Interest	<ol style="list-style-type: none"> (i) The interest of the policyholders is paramount and shall be protected during the entire process leading up to demerger and thereafter. Till the completion of the demerger, all claim/ obligation/ liabilities of the policy contract shall be processed by Bharti AXA, as per the terms and conditions of the policy. (ii) An option shall be provided to the policyholders of Bharti AXA for refund of pro-rata premium in case of cancellation of policy on account of the demerger. (iii) The existing policyholders of Bharti AXA will continue to experience the same personalized working relationships, with quality of customer service that they have been accustomed to in the past. (iv) There will be no change in the existing policy terms and conditions. All policies issued under Bharti AXA name shall remain so till expiry and will not require any amendment due to the proposed demerger transaction. The policyholders will have access to product suites of both ICICI Lombard and Bharti AXA. In case the policyholder wishes to switch to a new product, he/ she may do so, subject to terms and conditions as may be applicable. (v) The policyholders of Bharti AXA and ICICI Lombard will be given a suitable option to port their policies wherever portability is allowed.

The key terms of the Scheme set out above should be read in conjunction with, and is subject to the terms and conditions specified in the Scheme.

The Scheme is subject to various conditions precedent (as specified therein), including the approval of the Mumbai Bench of the Honourable National Company Law Tribunal, approval of creditors and shareholders of both Bharti AXA and ICICI Lombard and final approval of IRDAI for the demerger.

Date: November 30, 2020
Place: Mumbai

For ICICI Lombard General Insurance Company Ltd.
Sd/-
Adafactors 600

nfc

Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited

Nagarjuna Hills, Hyderabad - 500 082. Website: www.nagarjunafertilizers.com

CIN: L24129TG2006PLC076238

Extract of Unaudited Standalone & Consolidated Financial Results for the Quarter / Half Year Ended September 30, 2020

(Rs. in Lakhs)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated Results		
		Quarter ended	Half Year ended	Year ended	Quarter ended	Half Year ended	Year ended
		30/09/2020 Unaudited	30/09/2019 Unaudited	30/09/2020 Unaudited	30/09/2019 Audited	30/09/2020 Unaudited	30/09/2019 Unaudited
1.	Total income from operations (net)	28,722.84	49,002.18	75,447.43	84,316.02	173,349.82	28,722.99
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(12,626.02)	(10,719.37)	(21,926.78)	(22,742.13)	(50,581.09)	(12,625.92)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(26,708.02)	(10,719.37)	(36,008.78)	(22,742.13)	(50,581.09)	(26,707.92)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(22,494.54)	(9,956.63)	(31,027.65)	(21,274.02)	(47,235.05)	(22,494.44)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(22,494.54)	(9,956.63)	(31,027.65)	(21,274.02)	(46,893.40)	(22,494.44)
6.	Equity Share Capital	5,980.65	5,980.65	5,980.65	5,980.65	5,980.65	5,980.65
7.	Earning Per Share (of Rs.1/- each) (for continuing and discontinued operations) - Basic and Diluted	(3.76)	(1.66)	(5.19)	(3.56)	(7.90)	(3.76)

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter / Half year ended September 30, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said Unaudited Financial Results is available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website: www.nagarjunafertilizers.com.

Place: Hyderabad
Date: November 30, 2020

Sd/-
K. Rahul Raju
Managing Director

BOHRA INDUSTRIES LIMITED

301, Anand Plaza, University Road, Udaipur (Rajasthan)-313001
CIN: L24117RJ1996PLC012912, website: www.bohraindustries.com
email : bil@bohraindustries.com phone no: +91-294-2429513

NOTICE TO SHAREHOLDERS - REGISTER EMAIL ADDRESS

Shareholders are informed that 24th Annual General Meeting of the members of the Company is scheduled to be held on Monday 28th December, 2020 at 3.30 PM to be held through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM") in compliance with Ministry of Corporate Affairs (MCA) has vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated May 12, 2020.

The Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 "Annual Report" are being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/RTA/Depositories.

In Case the Members who have not registered their email addresses with the Company/Depository, please contact your depository Participant (DP) and register your email address in your demat account, as per the process advised by your DP.

The details (Name, Address, Contact No., Email and Client id/Folio no.) can be sent at investors@bohraindustries.com to receive Annual Report.

For Bohra Industries Limited
Sd/-
Nareesh Verma (Resolution Professional)
IBBI Regn. No. IPA-002/IP-N00054/2017-2018/10106

Form No. INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs
Northern Region

In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

In the Matter of M/s Fast & Furious Portfolio Limited having its registered Office at Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India

.....APPLICANT

Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 readwith aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 16th Day of October, 2020 to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Parvayaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Applicant
FAST & FURIOUS PORTFOLIO LIMITED

Sd/-
RAMESH CHANDER BHARDWAJ (Director)
DIN: 02776173
Address: Gali No.5, Mahavir Nagar, Kalaka Road Rewari - 123401 (HR)

Complete Address of Registered Office:
Property No. 72-A, Shop No. 2, DDA Flats Satyam Enclave, Jhilmil Delhi-110095 India
Date.: 01/12/2020
Place.: New Delhi

